

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024 — श्रावण 7, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-75/2024/18.— छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत आमदी, जिला-धमतरी के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

- नगर पंचायत आमदी को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
- यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	2
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
3	वीर नारायण सिंह वार्ड
4	श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड
5	स्वामी विवेकानंद वार्ड
6	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
7	बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव वार्ड
8	शिवाजी वार्ड

9	पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
10	सरदार भगतसिंह वार्ड
11	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
12	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
13	दशरथ वार्ड
14	श्रीमती राजमाता सिंधिया वार्ड
15	नारायण राव मेघावाले वार्ड

आमदी नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण  
वार्ड क्रमांक 01 महात्मा गाँधी वार्ड

उत्तर	:-	कृषि उपज मंडी से गंगा वॉच तक।
पूर्व	:-	गंगा वॉच से हनुमान मंदिर तक।
दक्षिण	:-	हनुमान मंदिर से उपस्वास्थ्य केन्द्र तक।
पश्चिम	:-	उपस्वास्थ्य केन्द्र से कृषि उपज मंडी तक।

वार्ड क्रमांक 02 पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर	:-	चन्द्रहास के दुकान से गौरा मंच होते हुये राजकुमार साहू के मकान तक।
पूर्व	:-	राजकुमार साहू के मकान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक।
दक्षिण	:-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से खोरकिंजरा के मकान तक।
पश्चिम	:-	खोरकिंजरा के मकान से चन्द्रहास के दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 03 वीर नारायण सिंह वार्ड

उत्तर	:-	गोपी ध्रुव के मकान से मंदिरा दुकान तक।
पूर्व	:-	मंदिरा दुकान से कुमार के मकान तक।
दक्षिण	:-	कुमार के मकान से दौवा के मकान होते हुये महादेव गोड़ के मकान तक।
पश्चिम	:-	महादेव गोड़ के मकान से गोपी ध्रुव के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 04 श्रीमती इंदिरा गाँधी वार्ड

उत्तर	:-	आनंद साहू के मकान से बुधराज साहू के मकान तक।
पूर्व	:-	बुधराज साहू के मकान से कोमल साहू के मकान तक।
दक्षिण	:-	कोमल साहू के मकान से उषा बाई के मकान तक।
पश्चिम	:-	उषा साहू के मकान से आनंद साहू के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 05 स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर	:-	सुरेश साहू के मकान से तुका ढीमर मकान तक।
पूर्व	:-	तुका ढीमर के मकान से शकीर खान के मकान होते हुए भोले बुट हाउस तक।
दक्षिण	:-	भोले बुट हाउस से मांगी राठी दुकान तक।
पश्चिम	:-	मांगी राठी के मकान से सुमित्रा के मकान होते हुए सुरेश साहू के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 06 सुभाष चंद्र बोस वार्ड

उत्तर	:-	हनुमान मंदिर से महेश साहू के दुकान तक।
पूर्व	:-	महेश साहू के दुकान से खोबाहरा के मकान तक।
दक्षिण	:-	खोबाहरा के मकान से केशव पटेल के मकान तक।
पश्चिम	:-	केशव पटेल के मकान से हनुमान मंदिर तक।

## वार्ड क्रमांक 07 बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव वार्ड

उत्तर	:-	मन्नू के मकान से भीखम ढाबा तक।
पूर्व	:-	भीखम ढाबा से आत्मा ढीमर के मकान तक।
दक्षिण	:-	आत्मा ढीमर के मकान से डॉ. मोहन के मकान होते हुए सिया पाड़े के मकान तक।
पश्चिम	:-	सिया पाड़े के मकान से मन्नू के मकान तक।

## वार्ड क्रमांक 08 शिवाजी वार्ड

उत्तर	:-	जोहन पाड़े के मकान से हरि देवांगन के मकान तक।
पूर्व	:-	हरि देवांगन के मकान से डॉकार दास के मकान तक।
दक्षिण	:-	डॉकार दास के मकान से श्याम पटेल के मकान तक।
पश्चिम	:-	श्याम पटेल के मकान से जोहन पाड़े के मकान तक।

## वार्ड क्रमांक 09 पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर	:-	मानसिंग ढीमर के मकान से प्रहलाद साहू के मकान तक।
पूर्व	:-	प्रहलाद साहू के मकान से अर्जुन ढीमर के मकान तक।
दक्षिण	:-	अर्जुन ढीमर के मकान से चन्द्रहास पाड़े के मकान तक।
पश्चिम	:-	चन्द्रहास पाड़े के मकान से मानसिंग ढीमर के मकान तक।

## वार्ड क्रमांक 10 सरदार भगत सिंह वार्ड

उत्तर	:-	मंडी तालाब से अहेलू के मकान होते हुए मनी साहू के दुकान तक।
पूर्व	:-	मनी साहू के दुकान से रमेश साहू के मकान तक।
दक्षिण	:-	रमेश साहू के मकान से विदेशी के मकान होते हुए मोती साहू के मकान तक।
पश्चिम	:-	मोती साहू के मकान से मंडी तालाब तक।

## वार्ड क्रमांक 11 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर	:-	सुलभ शौचालय से जेटू साहू के मकान तक।
पूर्व	:-	जेटू साहू के मकान से फोजू यादव के मकान तक।
दक्षिण	:-	फोजू यादव के मकान से प्रेमा पाड़े के मकान तक।
पश्चिम	:-	प्रेमा पाड़े के मकान से सुलभ शौचालय तक।

## वार्ड क्रमांक 12 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर	:-	अशोक पटेल के मकान से विष्णु देवांगन के मकान तक।
पूर्व	:-	विष्णु देवांगन के मकान से सुरेश साहू के मकान तक।
दक्षिण	:-	सुरेश साहू के मकान से दोबन साहू के मकान होते हुए हुमन साहू के मकान तक।
पश्चिम	:-	हुमन साहू के मकान से नरेश पटेल के मकान होते हुए अशोक पटेल के मकान तक।

## वार्ड क्रमांक 13 दशरथ वार्ड

उत्तर	:-	बद्री के मकान से नारायण साहू के मकान होते हुये किर्तन देवांगन के मकान तक।
पूर्व	:-	किर्तन देवांगन के मकान से तुम्मन के मकान तक।
दक्षिण	:-	तुम्मन के मकान से कृपा पाड़े के मकान तक।
पश्चिम	:-	कृपा पाड़े के मकान से बद्री के मकान तक।

## वार्ड क्रमांक 14 श्रीमती राजमाता सिंधिया वार्ड

उत्तर	:-	रामदयाल के मकान से पेट्रोल पम्प तक।
पूर्व	:-	पेट्रोल पम्प से आयुर्वेदिक औषाधालय तक।
दक्षिण	:-	आयुर्वेदिक औषाधालय से मुरलीधर साहू के मकान होते हुये भूषण साहू के मकान तक।
पश्चिम	:-	भूषण साहू के मकान से रामदयाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 15 नारायण राव मेघावाले वार्ड

उत्तर :- पवन साहू के मकान से भरोसा के मकान होते हुए लक्ष्मण यादव के मकान तक।  
पूर्व :- लक्ष्मण यादव के मकान से पेट्रोल पंप तक।  
दक्षिण :- पेट्रोल पंप से बांस टॉल तक।  
पश्चिम :- बांस टॉल से पवन साहू के मकान तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रेणुका श्रीवास्तव**, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-75/2024/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-75/2024/18 दिनांक 29-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रेणुका श्रीवास्तव**, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2024

#### NOTIFICATION

No. F 1-75/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Aamdi Distt. Dhamtari as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Aamdi, in to 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

#### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
01	MAHATMA GANDHI WARD
02	PANDIT DINDAYAL UPADDHYAY WARD
03	VEER NARAYAN SINGH WARD
04	SMT. INDIRA GANDHI WARD
05	SWAMI VIVEKANAND WARD
06	SHUBHASH CHANDRA BOSE WARD
07	BABU CHOTELAL SRIVASTAV WARD
08	SHIVAJI WARD
09	PANDIT SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD
10	SARDAR BHAGAT SINGH WARD
11	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
12	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
13	DASHRATH WARD
14	SMT. RAJMATA SINDHIYA WARD
15	NARAYAN RAO MEGHAWALE WARD

## Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Aamdi

## 01. MAHATMA GANDHI WARD

NORTH :- From Krishi upaj mandi to Ganga watch.  
 EAST :- From Ganga watch to Hanuman temple  
 SOUTH :- From Hanuman temple to Sub health center.  
 WEST :- From Sub health center. to Krishi upaj mandi.

## 02. PANDIT DINDAYAL UPADDHYAY WARD

NORTH :- From Chandrahash shop's to Gaura manch vai Rajkumar sahu's House.  
 EAST :- From Rajkumar sahu's House to Primary health center.  
 SOUTH :- From Primary health center to Khorkijra's house.  
 WEST :- From Khorkijra's house to Chandrahash shop's

## 03. VEER NARAYAN SINGH WARD

NORTH :- From Gopi Dhruw's house to Wine shop.  
 EAST :- From Wine shop to Kumar sahu's house.  
 SOUTH :- From Kumar sahu's house to Dauwa's house via Mahadev Gond's house.  
 WEST :- From Mahadev Gond's house to Gopi Dhruw's house

## 04. SMT. INDIRA GANDHI WARD

NORTH :- From Anand sahu's House to Budhraj sahu's house.  
 EAST :- From Budhraj sahu's house to Komal sahu's house.  
 SOUTH :- From Komal sahu's House to Usha bai's house.  
 WEST :- From Usha Sahu's house to Anand sahu's house.

## 05. SWAMI VIVEKANAND WARD

NORTH :- From Suresh Sahu's House to Tuka Dhimar's house.  
 EAST :- From Tuka Dhimar's house to Bhole Boot house vai Sakir Khan's house.  
 SOUTH :- From Bhole Boot house to Mangi rathi's house  
 WEST :- From Mangi rathi's house to Suresh Sahu's house via Sumitra house.

## 06. SHUBHASH CHANDRA BOSE WARD

NORTH :- From Hanuman Temple to Mahesh Sahu's Shop .  
 EAST :- From Mahesh Sahu's Shop to Khorbahara's house.  
 SOUTH :- From Khorbahara's house to Keshav Patel's house.  
 WEST :- From Keshav Patel's house to Hanuman Temple.

## 07. BABU CHOTELAL SRIVASTAV WARD

NORTH :- From Mannu's house to Bhikham Dhaba.  
 EAST :- From Bhikham Dhaba to Atma Dhimar's house.  
 SOUTH :- From Atma Dhimar's house to Siya Pandey's house via Dr. Mohan house.  
 WEST :- From Siya Pandey's house to Mannu house.

## 08. SHIVAJI WARD

NORTH :- From Johan Padey's house to Hari Dewangan's house .  
 EAST :- From Hari Dewangan's house to Donkar Das's house.  
 SOUTH :- From Donkar Das's house to Shyam Lal Patel's house.  
 WEST :- From Shyam Lal Patel's house to Johan Padey's house.

## 09. PANDIT SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD

NORTH :- From Mansingh Dhimar's to Prahlad Sahu's house .  
 EAST :- From Prahlad Sahu's house to Arjun Dhimar's house.  
 SOUTH :- From Arjun Dhimar's house to Chandrahas Padey's house  
 WEST :- From Chandrahas Padey's house to Mansingh Dhimar's house.

## 10. SARDAR BHAGAT SINGH WARD

NORTH :- From Mandi Talab to Mani Sahu's Shop house via Ahelu sahu's house.  
 EAST :- From Mani Sahu's Shop to Ramesh Sahu's house.  
 SOUTH :- From Ramesh Sahu's house to Moti Sahu's house via Videshi Sahu's house.  
 WEST :- From Moti Sahu's house to Mandi Talab.

## 11. SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD

NORTH :- From Sulabha Shauchalay to Jethu sahu's house .  
 EAST :- From Jethu's house to Foju Yadav's house .  
 SOUTH :- From Foju Yadav's house to Prema Pade's house.  
 WEST :- From Prema Pade's to Sulabh Shochalay.

## 12. CHANDRASHEKHAR AZAD WARD

NORTH :- From Ashok Patel's house to Vishnu Dewangan's house .  
 EAST :- From Vishnu Dewangan's house to Suresh Sahu's house .  
 SOUTH :- From Suresh Sahu's house to Huma Sahu's house via Doban Sahu's house .  
 WEST :- From Human Sahu's house to Ashok Patel's house via Naresh Patel's house.

## 13. DASHRATH WARD

NORTH :- From Badri's house to Narayan Sahu's house via Kirtan Dewangan's house  
 EAST :- From Kirtan Dewangan's house to Tumman's house.  
 SOUTH :- From Tumman's house to Kripa Pande's house.  
 WEST :- From Kripa Pande's house to Badri's house.

## 14. SMT. RAJMATA SINDHIYA WARD

NORTH :- From Ramdayal 's house to Petrol Pump.  
 EAST :- From Petrol Pump to Ayurvedic dispensary  
 SOUTH :- From Ayurvedic dispensary to Murlidhar sahu's house vai Bhushan sahu's house.  
 WEST :- From Bhushan sahu's house. to Ramdayal 's house

## 15. NARAYAN RAO MEGHAWALE WARD

NORTH :- From Pawan sahu's house to Laxman Yadav's vai Bharosa house.  
 EAST :- From Laxman yadav's house to Petrol Pump .  
 SOUTH :- From Petrol Pump to Bansh Taul.  
 WEST :- From Bansh Taul to Pawan sahu's house.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
 RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.